

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-

थाना- महाराजगंज**आबकारी अधिनियम में दो अभियुक्त गिरफ्तार**

आज दिनांक 21/12/20 को उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह को जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०सं० 284/20 धारा 60 Ex. Act से सम्बन्धित अभियुक्त 1. चन्द्रशेख सिंह S/O स्व० आदित्य सिंह साकिन लहरपार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 2. देवेन्द्र चौबे S/O मंगला चौबे साकिन लहरपार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को समय 08.10 बजे घटना स्थल वहद् ग्राम देवनपुर पेट्रोल पम्प पास से गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना दीदारगंज**धर्मान्तरण करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार**

श्री अशोक कुमार यादव पुत्र अच्छेलाल उम्र करीब वर्ष मूल निवासी ग्राम डिह कैथोली थाना दीदारगंज जनपद 30 आजमगढ़ द्वारा दाखिला तहरीर कि हिन्दुओ को लोभ देकर दुसरे धर्म मे हस्तांतरण कराने के मकसद से बालचंद जायसवार पुत्र रामआधार निवासी ग्राम रामपुर नदी थाना मडियाहूं जनपद जौनपुर गोपाल प्रजापति पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम बलुआ बीर आदमपुर थाना आदमपुर जनपद वाराणसी व नीरज कुमार पुत्र मनधारी निवासी ग्राम तिवारिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उपरोक्त विपक्षीगण मेरे गाँव के त्रिभुवन यादव पुत्र रामअचल यादव के घर आये थे जहाँ भी गया तो उपरोक्त लोग मुझे क्रिश्चियन धर्म में जाने को कहा व प्रार्थना करने हेतु भी कहे जब प्रार्थी ने उपरोक्त लोगो से ईसाई धर्म की प्रार्थना करने से मना किया तो उपरोक्त लोग मुझे गाली- गलौज व धमकी देने लगे उपरोक्त विपक्षीगण शोर होने पर भागने लगे जो प्रार्थी व मेरे आस - पास के पड़ोसीयो द्वारा पकडे गये है। विपक्षीगण के पास से बाइबिल व ईसाई धर्म से सम्बन्धित दस्तावेज भी बरामद हुए है। जिनको हम साथ लेकर आये है इस तहरीर पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० /20920 धारा 506/504 भादवि व 3/ विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन 0प्र०उ 5 थाना दीदारगंज आजमगढ़ 2020 प्रतिषेध अध्यादेश पंजीकृत किया गया

दिनांक- 20.12.2020 को थानाध्यक्ष दीदारगंज मय हमराह द्वारा _अभियुक्त 1. बालचंद जायसवार पुत्र रामआधार ग्राम रामपुर नदी थाना मडियाहूं जनपद जौनपुर 2. गोपाल प्रजापति पुत्र अशोक कुमार ग्राम बलुआ बीर आदमपुर थाना आदमपुर जनपद वाराणसी 3. नीरज कुमार पुत्र मनधारी ग्राम तिवारिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़मय अभि गण के कब्जे से बरामद० पवित्र बाइबलव कापी जिस पर श्री माता का न्यू लाल गुलाब अभ्यास पुस्तिका द्वारा क्रिस्चियन धर्म मे जाने को कहने लगे व प्रार्थना करने व धर्मसंपरिवर्तन से मना करने पर गाली गुत्ता व जान माल की धमकी देने पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

थाना-बिलरियागंज**गोवध अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक- 21.12.2020 को थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में उ०नि० श्री ओमप्रकाश यादव- II थाना बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा मय फोर्स के तहत तलाश वांछित अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर दिनांक 21.12.2020 को समय 11.50 बजे दिन में एक नफर वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र मोहसीन सा० नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को नसीरपुर बैंक पर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है